

## Windows7 को कैसे इनस्टॉल करे ?



windows xp के बाद अब windows 7 operating systems लोगों की पसंद बन गया है, इसकी कई खूबियाँ इसको windows xp से कहीं बढ़कर बनाती हैं, तो आईये जानते हैं microsoft operating systems windows 7 को step by step install कैसे किया जाये - आपको windows 7 install करने के लिये Windows 7 की bootable disk की Requirement पड़ेगी, अगर वह आपके पास है तो ही आप windows 7 अपने Computer में install कर पायेंगे। microsoft windows 7 को लोगों के बीच में लाने के लिये उसका demo अपनी Official site पर दिया है। आप microsoft site जाकर Official Windows 7 SP1 ISO Download कर सकते हैं।

**step-1** windows 7 install करने के लिये सबसे पहले Computer को CD/DVD से Boot कराने के लिये Set कीजिये। इसके लिये Computer को Restart/on कीजिये तथा keyboard से F2 दबाईये और set the order में 1st Boot Device के तौर पर अपने CD/DVD Device को Set कीजिये। अब F10 दबाकर Computer को Restart कीजिये।

**step-2** Restart के समय windows xp की bootable disk को अपने DVD rom में डालिये।

**step-3** press any key boot from cd or DVD... लिखा आने पर keyboard से कोई भी Button दबा दीजिये।



**step-4** windows is loading files लिखा आयेगा, यहाँ DVD से जरूरी setup file copy होती हैं। इसमें कुछ मिनट लगते हैं।



**step-5** कुछ देर बाद Select your language, time & currency format, keyboard or input method पूछा जाता है, यहाँ आप language में यदि hindi Select करते हैं तो आपको windows 7 का बहुत सा भाग Hindi में दिखाई देगा। यह Select कर Next पर क्लिक कीजिये।




**step-6** अब आपको Windows 7 install now window दिखाई देगी यहाँ install now पर Click कीजिये।




**step-7** इसके बाद windows 7 license terms आयेगें, यहाँ I accept the license terms पर टिक कीजिये और Next कीजिये।

**step-8** इस अगली windows में Upgrade और Custom (advanced) का Option आयेगा। अगर आपके computer में windows xp पहले से install है और आप उसे windows 7 में Upgrade करना चाहते हैं तो Upgrade पर click कीजिये और अगर आप बिल्कुल new windows 7 install करना चाहते हैं तो Custom (advanced) पर click कीजिये इससे आपकी पुरानी windows xp की आपके computer में सुरक्षित रहेगी।




**step-9** Custom (advanced) पर click ही आपसे आपकी Hard disk का partition पूछा जायेगा जिसमें आप windows 7 install करना चाहते हैं। अगर आप

partition को format करना चाहते हैं तो disk Option पर Click कीजिये। अगर नहीं तो partition को सलेक्ट कर Next पर click कीजिये।




**step-10** अब थोड़ी देर के लिये Computer को ऐसे ही छोड़ दीजिये जब तक Restart नहीं हो जाता। यहाँ Windows 7 की installation Start हो जायेगी। यह 5 Step में Complete होगी। इसमें 5-10 मिनट का समय लग सकता है।



**step-11** Computer के Restart होने के बाद कुछ और Process होंगी इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यह windows द्वारा स्वयं पूरी की जायेगी।

**step-12** कुछ देर बाद User name और password मॉंगा जायेगा। वहाँ भरकर Next कर दीजिये।

**step-13** अब आपसे windows product key मॉंगी जायेगी, अगर आपके पास है तो type कर दीजिये अगर नहीं तो windows 30 दिन बाद Deactivate हो जायेगी। अब next पर click कीजिये।



Copyright © 2014 Top Career Computers Jhalawar Design Top Career Edu Tech Private Limited

**step-14** कुछ देर बाद Date और time पूछे जायेंगे सलेक्ट कर लीजिये और Next कीजिये।

**step-15** कुछ पलों बाद windows 7 का जाना पहचाना Desktop आपके सामने होगा। अब यह आपके प्रयोग के लिये तैयार है।